

6th November, 2025

Ref. No.: 102339/S/O/L-1/2025-26

The Manager,
Listing/Market Operation,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

The Manager, Corporate Relationship Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

NSE Code - ASAHIINDIA

BSE Code - 515030

Sub: Publication of Unaudited Financial Results for the second quarter and half year ended 30th September, 2025

Dear Sir/Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Unaudited Financial Results of the Company for the second quarter and half year ended 30th September, 2025, as published in "Business Standard", all editions and "Veer Arjun", New Delhi on 6th November, 2025.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly, For Asahi India Glass Limited,

Gopal Ganatra

Executive Director

General Counsel & Company Secretary

Membership No.: F 7090

Encl.: As above

Asahi India Glass Ltd.
Corporate Office: Unit No. 301-308,
1101-1104, 3rd and 11th Floor, Tower-D,
Global Business Park, M. G. Road,
Gurugram-122002 Haryana (India)
Tel.: +91124 4062212-19
Fax: +91124 4062244, 4062288
website: www.aisglass.com
Corporate Identity Number: 126102DL1984PLC019542

(A Government Company) Regd. Office: Kothagudem – 507101, Telangana.

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE atform. For details, please visit https://tender.telangana.gov.in - or - https://sccimines. NIT/Enquiry No. - Description/Subject/Estimated Contract Value - Last date and time

CRP/CYL/1000 Quarters/TN-50/2025-26, Dt. 04.11.2025- Construction of 1000 nos. nev quar ters including infrastructural facilities and allied works for Executives and NCWA employees at Ramagundam-I Area of Peddapalli District, Srirampur Area of Mancherial District, Bhupalpalli Area of Jayashankar Bhupalpally District and Manuguru Area of Bhadradri Kothagudem District, Telangana State. (BOQs-1 to 4) -Rs. 313,31,14,165/--19.11.2025-04:30 PM.

CW/KGM/e-32/2025-26, Dt.03.11.2025 - Painting to exterior walls and other misc., civil repair works at nine (9) blocks of MD type quarters at Main Hospital area, Kothagudem Corporate, Bhadradri Kothagudem District, Telangana State. ("Invited under earmarked works - SCCI. registered contractors belonging to SC Community only are eligible to participate") - Rs. 39,44,325/--18.11.2025-05.30 PM.

GM (Civil)

PR/2025/ADVT/CVL/111 DIPR R.O. No.: 802-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2025-26, Date: 05-11-2025



Infosys Limited

Corporate Identification Number (CIN): L85110KA1981PLC013115 Regd. Office: Electronics City, Hosur Road, Bengaluru - 560100. Phone: +91 80 2852 0261, Fax: +91 80 2852 0362 investors@infosys.com, www.infosys.com

NOTICE

Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the Special Dividend declared for the financial year 2018-19, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF on February 10, 2026. The corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

In compliance with the Rules, Individual notices are being sent to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF as per the aforesaid Rules, the full details of such shareholders is made available on the Company's Website: https://www.infosys.com/investors/shareholder-services/Pages/transfer-equity-shares.aspx

In this connection, please note the following:

- 1) In case you hold shares in physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you, will stand automatically cancelled.
- 2) In case you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to the IEPF.

In the event of valid claim is not received on or before February 7, 2026, the Company will proceed to transfer the liable dividend and Equity shares in favor of IEPF authority without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules. It may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend from IEPF authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online after obtaining Entitlement letter from the Company.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, Mrs. Shobha Anand, Vice President at M/s. KFin Technologies Limited Unit: Infosys Limited, Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad, Rangareddi, Telangana India-500032. Tel: +91-40-67162222 email ID: einward.ris@kfintech.com.

For Infosys Limited

November 5, 2025 Bengaluru, India

AIS

A.G.S. Manikantha Company Secretary Membership no: A21918



Mansarover Garden, New Delhi -110015, Phone: (011) 49454900 Corporate Office: 3" & 11" Floor, Tower D, Global Business Park, Mehrauli - Gurugram Road, Gurugram – 122 002 (Haryana)

Phone: (0124) 4062212-19; Fax: (0124) 4062244/88

Email: investorrelations@aisglass.com, Website: www.aisglass.com

				(Rs. Lakh
S. No.	Particulars	Quarter ended	Half Year ended	Quarter ended
		30.09.2025	30.09.2025	30.09.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations	1,16,215	2,40,166	1,16,331
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	7,057	14,634	14,091
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	7,057	14,634	14,091
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	5,819	11,298	9,454
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,829	11,391	9,361
6	Equity Share Capital	2,549	2,549	2,431
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		2,64,469	
8	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)			
	(a) Basic (b) Diluted	2.22 2.22	4.42 4.42	3.93 3.93

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30" SEPTEMBER, 2025									
	(Rs. Lakhs								
S. No.	Particulars	Quarter Half Year Quarter Particulars ended ended ended							
		30.09.2025	30.09.2025	30.09.2024					
		Unaudited	Unaudited	Unaudited					
1	Total Income from Operations	1,09,386	2,25,003	1,09,550					
2	Profit before tax	6,683	13,922	13,818					
3	Profit after tax	4,746	10,083	9,272					

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com & www.nseindia.com respectively and or company's website at www.aisglass.com.
- The above financial results have been reviewed by the Audit & Risk Management Committee on 3rd November, 2025 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 5th November, 2025.
- The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016, recognition and measurement principles in Ind AS 34 Interim Financia Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
- National Company Law Tribunal, New Delhi Bench vide its Order dated 19th May, 2025 had approved merger of three erstwhi subsidiaries of the Company - GX Glass Sales & Services Limited, AIS Distribution Services Limited and AIS Adhesives Limited with another subsidiary company namely, AIS Glass Solutions Limited from 1st April, 2023 - Appointed Date and the certified copy of the Order was filed with the office of Registrar of Companies. NCT of Delhi and Harvana on 1st July. 2025 - Effective Date. In terms of Ind AS 103 - Business Combinations, the accounting impact and related merger adjustments including tax expense as per the approved Scheme have been incorporated in the restated Financial Statements of AIS Glass Solution
- Limited from the appointed date. The figures of preceding periods for consolidated financial results have not been restated. During the quarter, the Company has raised Rs. 1000 Crores through issue and allotment of Equity Shares to Qualified Institutional Buyers.



For and on behalf of the Board of Director Sanjay Labro



THE RAMCO CEMENTS LIMITED

Regd. Office: "Ramamandiram", Rajapalayam - 626 117. Corporate Office: 98-A, Dr.Radhakrishnan Salai, Chennai 600 004. CIN: L26941TN1957PLC003566; E-mail: ksn@ramcocements.co.in

EXTRACT OF CONSOLIDATED UN-AUDITED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2025

Rs. in Crores						
	C	Quarter Ende	d	Half-Yea	r Ended	Year Ended
Particulars	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
	30-09-2025	30-06-2025	30-09-2024	30-09-2025	30-09-2024	31-03-2025
Total Income	2,245.28	2,080.00	2,053.94	4,325.28	4,155.59	8,559.57
Net Profit before exceptional items and tax	99.83	114.87	34.49	214.70	82.03	119.90
Exceptional Items [Refer Note No.4]	-	-	-	-	-	199.41
Net Profit for the period before Tax	99.83	114.87	34.49	214.70	82.03	319.31
Net Profit for the period after Tax attributable to						
- Equity shareholders of the Parent	77.34	85.03	25.70	162.37	62.86	272.65
- Non-Controlling Interest	0.54	(0.47)	0.07	0.07	(0.52)	(3.08)
Total	77.88	84.56	25.77	162.44	62.34	269.57
Total Comprehensive Income for the period after tax attributable to						
- Equity shareholders of the Parent	75.16	90.80	23.08	165.96	60.27	262.88
- Non-Controlling Interest	0.53	(0.44)	0.06	0.09	(0.53)	(3.10)
Total	75.69	90.36	23.14	166.05	59.74	259.78
Paid up Equity Share Capital	23.63	23.63	23.63	23.63	23.63	23.63
Other Equity				7,536.67	7,215.41	7,418.02
Securities Premium Account				50.59	50.59	50.59
Net worth				7,560.60	7,242.10	7,442.14
Paid up Debt Capital				4,676.56	5,203.72	4,652.10
Capital Redemption Reserve				1.63	1.63	1.63
Debenture Redemption Reserve				-	-	-
Debt-Equity Ratio (in multiples)				0.62	0.72	0.63
Debt Service Coverage Ratio (in multiples)				0.94	1.24	1.18
Interest Service Coverage Ratio (in multiples)				3.23	2.40	2.77
Earnings Per share of Re.1/- each (Rs.p)						
(Not Annualized)						
Basic:	3.27	3.60	1.12	6.87	2.75	11.53
Diluted:	3.27	3.60	1.12	6.87	2.75	11.53
	Total Income Net Profit before exceptional items and tax Exceptional Items [Refer Note No.4] Net Profit for the period before Tax Net Profit for the period after Tax attributable to - Equity shareholders of the Parent - Non-Controlling Interest Total Total Comprehensive Income for the period after tax attributable to - Equity shareholders of the Parent - Non-Controlling Interest Total Paid up Equity Share Capital Other Equity Securities Premium Account Net worth Paid up Debt Capital Capital Redemption Reserve Debenture Redemption Reserve Debt-Equity Ratio (in multiples) Debt Service Coverage Ratio (in multiples) Interest Service Coverage Ratio (in multiples) Earnings Per share of Re.1/- each (Rs.p) (Not Annualized) Basic:	Particulars Un-Audited 30-92-2025 Total Income 2,245.28 Net Profit before exceptional items and tax 99.83 Exceptional Items [Refer Note No.4] - Net Profit for the period before Tax 99.83 Net Profit for the period after Tax attributable to - Equity shareholders of the Parent 77.34 - Non-Controlling Interest 0.54 Total 77.88 Total Comprehensive Income for the period after tax attributable to - - Equity shareholders of the Parent 75.16 - Non-Controlling Interest 0.53 Total 75.69 Paid up Equity Share Capital 23.63 Other Equity 23.63 Other Equity 23.63 Other Equity Redemption Reserve 2 Debenture Redemption Reserve 2 Debt-Equity Ratio (in multiples) 2 Debt Service Coverage Ratio (in multiples) 2 Interest Service Coverage Ratio (in multiples) 2 Earnings Per share of Re.1/- each (Rs.p) (Not Annualized) Basic: 3.27	Particulars Un-Audited Un-Audited 30-09-2025 30-06-2025 10-09-2025 30-06-2025 Total Income 2,245.28 2,080.00 Net Profit before exceptional items and tax 99.83 114.87 Exceptional Items [Refer Note No.4] Net Profit for the period before Tax 99.83 114.87 Net Profit for the period after Tax attributable to - Equity shareholders of the Parent 77.34 85.03 - Round Comprehensive Income for the period after tax attributable to - Equity shareholders of the Parent 77.88 84.56 Total Comprehensive Income for the period after tax attributable to - Equity shareholders of the Parent 75.16 90.80 - Non-Controlling Interest 0.53 (0.44) Total 75.16 90.80 - Non-Controlling Interest 23.63 23.63 Paid up Equity Share Capital 23.63 23.63 Other Equity Securities Premium Account Securities Premium Account Net worth Securities Premium Redemption Reserve Security France (Security Redemption Reserve)	30-09-2025 30-09-2024 30-09-2024 30-09-2024 30-09-2024 30-09-2024 30-09-2024 30-09-2024 30-09-2024 30-09-2025 30-09-2024 30-09-2024 30-09-2025 30-09-2024 30-09-2025 30-09-2024 30-09-2025 30-09-2024 30-09-2025 30-09-2024 30-09-2025 30-09-2024 30-09-2025 30-09-2024 30-09-2025 30-09-2024 30-09-2025 30-09-2024 30-09-2025 30-09-2025 30-09-2024 30-09-2025 30-	Particulars Un-Audited 30-09-2025 40-20-20-20 30-09-2025 40-20-20 30-09-2025 40-20-20 30-09-2025 30-09-202	Particulars Un-Judited Un

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarter and Half Year Ended Un-Audited Statement of Profit and Loss that has been filed with Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Half Year Ended Un-Audited Statement of Profit and Loss are available on the Bombay Stock Exchange website www.bseindia.com, the National Stock Exchange website www.nseindia.com and on the Company's website https://www.ramcocements.in/investors/financials
- For the other line items referred in regulation 52(4), 54(2) & (3) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the stock exchanges and can be accessed on the websites of the stock exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and that of the Company's website https://www.ramcocements.in/investors/financials
- The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The said financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meetings held on 05-11-2025. The Statutory Auditors have carried out limited review of the above results and expressed an unmodified audit
- 4. Exceptional items for the year ended 31-03-2025 comprises of Profit on sale of investments (after consolidation adjustments) amounting to Rs. 149.70 Crores and Profit on sale of surplus lands

amounting to Rs.49.71 Crores.

Key Standalone financial information					Rs. in Crores	
		Quarter Ende	d	Half-Yea	Year Ended	
Particulars	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
	30-09-2025	30-06-2025	30-09-2024	30-09-2025	30-09-2024	31-03-2025
Total Income	2,241.89	2,076.61	2,049.50	4,318.50	4,146.37	8,539.10
Net Profit before tax	100.24	116.47	34.97	216.71	83.13	465.74
Net Profit after tax	74.31	86.01	25.58	160.32	61.08	417.39

6. The previous period figures have been re-grouped/re-stated wherever necessary

Chennai 05-11-2025



For THE RAMCO CEMENTS LIMITED M.F. FAROOQUI **CHAIRMAN**



ADITYA BIRLA LIFESTYLE BRANDS LIMITED

[CIN: L46410MH2024PLC423195] Regd. Office: : Piramal Agastya Corporate Park, Building 'A', 4'h and 5'h Floor, Unit No. 401, 403, 501, 502, L.B.S. Road, Kurla, Mumbai - 400 070
Tel.: +91 86529 05000 | E-mail: cs@ablbl.adityabirla.com | Website: www.ablbl.in

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025

Sr.	Particulars		Quarter ended		Six Months Ended		Year ended
No.		September 30, 2025 (Unaudited)	June 30, 2025 (Unaudited)	September 30, 2024 (Unaudited)	September 30, 2025 (Unaudited)	September 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)
1.	Total Income from operations	2,037.90	1,840.58	1,964.93	3,878.48	3,749.40	7,829.96
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	31.07	28.17	17.76	59.24	46.58	181.74
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	31.07	28.17	(80.57)	59.24	(51.75)	83.41
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax and Exceptional items	23.44	24.06	(58.77)	47.50	(39.08)	59.60
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	23.42	21.28	(59.77)	44.70	(40.30)	56.31
6.	Paid - up Equity Share Capital	1,220.29	1,220.29	0.05	1,220.29	0.05	0.05
7.	Share pending issuance	-	-	1,220.26	-	1,220.26	1,220.26
8.	Other Equity (excluding share suspense)						56.22
9.	Net worth (excluding non-Controlling interest)						1,276.53
10.	Paid-up Debt Capital/ Outstanding Debt						952.19
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares						0.55
12.	Debt Equity Ratio*	0.51	0.50	0.67	0.51	0.67	0.39
13.	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (Not annualised) 1. Basic (in ₹): 2. Diluted (in ₹):	0.19 0.19	0.20 0.20	(0.58) (0.58)	0.39 0.39	(0.38) (0.38)	0.49 0.49
14.	Debt Service Coverage Ratio*	1.87	1.87	(0.83)	1.87	0.36	1.52
15.	Interest Service Coverage Ratio*	1.89	1.89	(0.89)	1.89	0.39	1.67

*Based on standalone financial results

Notes:

Place: Mumbai

Date: November 4, 2025

- a) The Standalone and Consolidated Financial Results, were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 4, 2025.
- The Board at its meeting held on April 19, 2024, subject to necessary approvals, considered and approved the demerger of the Madura Fashion and Lifestyle ('MFL') Business under a Scheme of Arrangement between Aditya Birla Fashion and Retail Limited ('Demerged Company') and Aditya Birla Lifestyle Brands Limited ('Resulting Company'). The Scheme provided for demerger, transfer, and vesting of the MFL Business from the Demerged Company to the Resulting Company on a going concern basis, with the Resulting Company issuing equity shares to the equity shareholders of the Demerged Company as a consideration. The demerger was executed through an NCLT scheme of arrangement. The Scheme provided that all shareholders of the demerged company will hold identical shareholdings in both the companies, post the demerger.
 - The Scheme received sanction from the Hon'ble NCLT on March 27, 2025, a certified copy of the order was received on April 22, 2025 ("Order"). Subsequently, the Demerged and Resulting Company filed the certified copy of the Order and the Scheme with the Registrar of Companies, Mumbai, making the Scheme effective from May 1, 2025. On May 26, 2025, the Resulting Company has allotted 1,22,02,94,773 fully paid-up equity shares of face value ₹10/- each, to the shareholders of the Demerged Company as on the record date i.e. May 22, 2025, in the share exchange ratio 1:1 i.e. 1 (one) fully paid-up equity share of the Resulting Company having face value of ₹10/- each for every 1 (one) fully paid-up equity share of ₹ 10/- each of the Company.
- The equity shares of the Resulting Company have been listed on BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited on June 23, 2025.
- The Company has disclosed the information required to be provided as per the Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in Standalone financial results filed with the Stock Exchange(s) i.e. <u>www.bseindia.com</u> and <u>www.nseindia.com</u>.
- The above is an extract of the detailed Unaudited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchanges' websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also available on the Company's website i.e. www.ablbl.in. The results can also be accessed by scanning the QR.





For and on behalf of the Board of Directors Aditya Birla Lifestyle Brands Limited

> Ashish Dikshit Managing Director

Scan the QR Code to view the results on the website of the Company

Place: Soniyana, Rajasthan

Date: 5th November, 2025

Chairman & Managing Director

बिहार में दो-तिहाई बहुमत से सरकार वनाएगा राजग : राजनाथ सिंह

बांका (बिहार), (भाषा)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) बिहार में दो-तिहाई बहुमत के साथ अगली सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि लोग राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के शासनकाल की तुलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्ष के कार्यकाल से कर रहे हैं। बांका जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, नीतीश क्मार पर आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, जबिक राजद के कई नेता भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल में लोगों को डराया-धमकाया जाता था, जबकि राजग सरकार ने जनता के हित में काम किया है। रक्षा मंत्री ने कहा, राजद शासन के दौरान बिहार का स्वास्थ्य बजट मात्र 700 करोड रुपये था, जो अब राजग सरकार

न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (एस.डी.), बुलन्दशहर विविध वाद स.—343 सन—2025 विपिन कुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण शर्मा. निवासी—9 / 13, सराय बलिहारान, गांधी चौक, बुलन्दशहर ...प्रार्थी / वादी बनाम

1. ललित वर्मा पुत्र बालकिशन वर्मा 2. सुनीता वर्मा पत्नी ललित वर्मा निवासीगण—सराय कोहना, परगन –बरन, तहसील व जिला– बुलन्दशहर ।प्रतिवादीगण हरगाह विपिन कुमार शर्मा ने आपके नाम एक नॉलिश बावत के दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 01 माह 12 सन 2025 ई. बवक्त बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात के करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुछ उमराई अहम मुतालिका मुकदमा का जवाब दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा करे और आपको लाजिम है कि उसी रोज अपने दस्तावेज पेश करें। जिस पर आप अपनी जवाबदेही के दस्तखत करना चाहते हो।

बवक्त मेरे दस्तखत और मोहर अदालत के आज बतारीख 03 माह 11 सन् 25 ई. को जारी किया

1. अगर आपको यह अन्देशा है कि आपके गवाह अपनी मर्जी से हाजिर न होंगे तो आप अदालत के सम्मन वकई जारी करा सकते हैं जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जाये और जिस दस्तावेज की किस गवाह से पेश कराने आप इस्तन्दाज रखते है वह उससे पेश कराई जाए बशर्तें कि खर्चा जारी अदालत में दाखिल करके इस अमर की दस्तखत गुजराये ।

अगर आप मुतालिका मुद्दई को तसलीम करते है जो आपको लाजिम है कि रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करे ताकि कार्यवाही इजराह डिगरी जो आपकी जान या माल या दोनों पर ही करना न पड़े।

मुद्रा

हस्ता. /-न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (एस.डी.), बुलन्दशहर

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, rule 20 of the **Code of Civil** Procedures)

In The Court of Sh. Vinod Joshi, Judge Small Cause Court, Additional Senior Civil Judge, Gaurdian Judge, New Delhi District, Room No. 17, Main Building, Patiala House Courts, New Delhi.

CS SCJ No. 806/24 M/s True Link Finance Ltd.

۷s Miss. Khushbu Kumari

Miss Khushbu Kumari D/o Sh. Lal Bihari Manjhi R/o H. No. 304-B, Bhanwar Singh Camp Vasant Vihar, Nearby Cable Wala New Delhi-110057.

Whereas the plaintiff has instituted above Suit against you for Suit For Recovery and you are intentionally evading service of summons. You are hereby directed to appear in person or by pleader on 26.11.2025 at 10:00 AM, to answer the same, failing which the suit/application will disposed of ex-parte.

Given under my hand and seal of the court, this 08.10.2025.

Seal **Judge Small** Cause Court, Additional Senior Civil Judge, Gaurdian Judge, New Delhi District, Main **Building, Patiala House** Courts, New Delhi



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

में बढकर 20,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीर है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बेहतर हों। राजद भी नहीं चाहता था कि बिहार में विकास हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश

In The Court Of XXI District and Additiona Session Judge, District Court, Gwalior Presiding Officer : नवनीत कमार वालिया (आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेत् (RCS A/0000912/2023) बहादुर शास्त्री महाविद्यालय......वादी

धीर सिंह भदौरिया..... प्रतिवादी Process Id-/2023 पेशी दिनांक :- 17/12/202 (1) सुनील कुमार शर्मा पिता श्री मुरारीलाल शम ाता- कार्टर नं. 189 टाईप् 3 एसपीजी काम्पलेव सेक्टर ८ दारिका साउथ बेस्ट दिल्ली

यह कि प्रार्थी लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय आपके विरुद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आप इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस भीतर ताद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर ह के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वय किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) दारा उपसंजात हो सक हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आप ह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिर का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें हि पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदा गथारित हो. और यदि आप अन्य किसी दस्तातेल चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा ाजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप नेर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित क^र के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊ बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं ह तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटा भापकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह १ सुचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यर हैं माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिका 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मदा ल

नवनीत कुमार वालिया इक्कीसवें जिला न्यायाधीश ग्वालियर (म.प्र.) कृपया ध्यान दें:-1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालर्य अवक पर रहेगा वो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेग

Proclamation Requiring Attendence of Defendent (Order 5, Rule 20 of Code of Civil Procedure) In The Court of Vikram, District Judge+MACT, North

Courts, 211, Rohini Delhi MACT Case No. 1189/24 Deepak Sharma

West District, Room No.

Versus Karan Jhunihunwala

Respondent No. 2 Shekhar S/o Sh. Devendra Singh R/o Plot No. 26, ABR Residency, Mahagunpuram Mehrauli, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201002.

Whereas, you are intentionally evading the service of summons, it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 09th December. 2025 at 10 A.M. the day fixed for the heraing/ final disposal, the case will be heard and determined ex-

parte. Given under my hand and seal of this Court on this 30.10.2025.

|Seal

Sd/-**District Judge+MACT**, **North-West District,** Rohini Courts, Delhi.

Notice under Order Rule 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure) In The Court of Sh. Fahaduddin, Senior Civil Judge-Cum-Rent Controller, South East District Court No. 02, Ground Floor, District Courts, Saket, New Delhi. CS SCJ No. 1608/2024

Bhagwan DeviPlaintiff

V/s BabluDefendant

Bablu S/o Ramu Diwakar R/o H. No. 127, Block L-2A, Mohan Garden Uttam Nagar, Delhi-110059.

Whereas you intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 20.01.2026 the day fixed for the final disposal, it will be heard and

determined ex-parte. Given under my hand and the seal of the court, this 31.10.2025. Sd/-

Senior Civil Judge-cum-Rent **Controller South East District, District Courts,** Saket, New Delhi

की राजनीति में विकास विरोधी सोच को खत्म कर दिया है।

उन्होंने कहा, जब मोदी ने सत्ता संभाली, तब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी। आज यह पांचवें स्थान पर है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगी। सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदुर के तहत पडोसी देश में आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, अगर आतंकवादी ऐसी हरकत दोबारा करेंगे, तो हम और भी कड़ा जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर रुका है, समाप्त नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सशस्त्र बलों का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है।

In The Court of Neelofer Abida Perveen, District Judge-06. Room No. 310. Third lfloor. South-East District, Saket Courts Complex. New Delhi.

Citation Under Section 278 of The Indian Succession Act, 1925 Suit No:- PC 48/2025 Title: Mark Amerson

>Plaintiff VersusDefendant

Τo, 1. State (Govt of NCT Delhi) 2. Jennifer Amerson D/c

Amerson Rusom Masih R/o C-3/10, East of Kailash, South Delhi, Delhi-110065. Whereas an application

the Indian under Succession Act, 1925, for grant of probate of the Will/ letters of Administration to the Estate of Late Smt. Amerson Rustam Masih Sh. Kamlesh Amerson R/o C-3/10, DDA Flats, C Block, East of Kailash, New Delhi, South Delhi-110065, who died on 16.05.2021 at Delhi, has been made by petitioner, in the

names of testator. Notice is hereby given to the general public having any interest in the Probate Letter of Administration of Ithe Estate of the above named Petitioner/ deceased may if he/she desires, appear in this court on 22.12.2025 and participate in the proceedings before the grant of Letter

Administration/Probate. Given under my hand and the seal of this court this 31th day of October, 2025. Seal Sd/-

District Judge-06, South-East **District, Saket Courts** Complex, New Delhi.

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

In The Court of Ms. Neelofer Abida Perveen, District Judge-06, Room No. 310, Third South-East floor. District, Saket Courts Complex, New Delhi.

CS DJ No. 1052/2022 Title: M/s Hemlata KumariPlaintiff Versus

Sh. Kamal SinghDefendant

1. Ms. Sunita Devi W/o Sh. Bhushan Chaudhary R/o H. No. 2, Jagdamba Colony, Aali Vihar, Post Sarita Vihar, New Delhi 110076.

Sh. Bhushan Chaudhary S/o Late Sh. Santosh Chaudhary R/o H No. 2, Jagdamba Colony Aali Vihar, Post Sarita Vihar, New Delhi-110076. Whereas you are intentionally evading

service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 25th day of November, 2025 the day fixed for the final disposal it will be heard and determined ex-parte. Given under my hand and

the seal of this court on this 01th day November, 2025. Sd/-Seal

District Judge-06, South-East **District, Saket Courts** Complex, New Delhi.

सात नवंबर को निसार उपग्रह के परिचालन शुरू करने की घोषणा की जाएगी : इसरो प्रमुख

नई दिल्ली, (भाषा)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने बुधवार को कहा कि इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह के परिचालन शुरू करने की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी। नासा-इसरो सिंथेटिक ऐपर्चर रडार (नि-सार) को अब तक का सबसे महंगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कहा जाता है। यह उपग्रह पृथ्वी की अधिकतर भूमि और बर्फीली सत-हों पर हर 12 दिनों में दो बार निगरानी की क्षमता रखता है। करीब 2,400 किलोग्राम वजनी निसार उपग्रह को 30 जुलाई को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी रॉकेट का उपयोग

नारायणन ने यहां उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (ईएसटीआईसी) को

करके प्रक्षेपित किया गया था।

संबोधित करते हुए कहा, संपूर्ण डेटा का निर्धारण पूरा हो चुका है और हम सात नवंबर को एक सम्म-`लन आयोजित करेंगे, जिसमें उपग्रह के परिचालन शुरू करने की घोषणा की जाएगी। नारायणन ने कहा, सारा डेटा बहुत उत्कृष्ट है। हर 12 दिन में पृथ्वी का अवलोकन किया जा सकता है और यह एक अत्यंत उपयोगी उपग्रह साबित होगा।

इसरो प्रमुख ने यह भी कहा कि परियोजना का पहला मानवरहित मिशन जनवरी में होने की उम्मीद है. जिसमें 2027 तक एक स्व-निर्मित रॉकेट के जरिये अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। ानारायणन ने कहा कि इस मिशन के लिए अब तक 8.000 से ज्यादा परीक्षण किए जा चके हैं. और इसरो की योजना अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजने से पहले तीन मानवरहित मिशन संचालित करने की है।

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त कृष कशिश गंडोत्रा, पुत्रः श्री शांति स्वरूप, पताः जेड-30, द्वितीय तल, नवीन शाहदरा, दिल्ली ने मुकदमा FIR No. 84/23 U/s 498A/406/34 IPC, थानाः फर्श बाज़ार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त कृष कशिश गंडोत्रा मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त कृष किशश गंडोत्रा फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि मुकदमा FIR No. 84/23 U/s 498A/406/34 IPC, थानाः फर्श बाजार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त कृष कशिश गंडोत्रा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 09.01.2026 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानसार सुश्री मीना चौँहान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, महिला कोर्ट-01 DP/14778/SHD/2025 कमरा नं. 55, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली (Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

घारा ८४ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ देखिए मेरे समक्ष परिवाद किया है अभियुक्त नामः मनीष, पुत्रः श्री धर्मपाल, निवासीः मकान नंबर 104/14, पंजाबी बस्ती, गली नंबर 4, आनंद पर्वत, करोल बाग, दिल्ली ने अपराध किया है (या किए जाने का संदेह है) FIR No.17/2021 U/S 279/338 IPC के तहत एक मामला थाना प्रसाद नगर, जिला मध्य, दिल्ली में दर्ज किया गया है और उसके बाद जारी गिरफ्तारी वारंट को यह कहते हुए वापस कर दिया गया है कि अभियुक्त मनीष नहीं मिला या मेरी संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि अभियुक्त मनीष फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा कि थाना प्रसाद नगर, जिला मध्य, दिल्ली में FIR No.17/2021 U/S 279/338 IPC के अभियुक्त मनीष को उक्त परिवाद का जवाब देने के लिए 18.02.2026 को सुबह 10.00 बजे या उससे पहले अदालत में उपस्थित होना आवश्यक है।

पूर्वोत्तर रेलवे

खली ई-निविदा सूचना संख्याः

दिनांक: 03-11-2025

लिये वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर / टीआरडी,

पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी द्वारा निम्नलिखित कार्य

क्रम सं.-01, कार्य का नामः पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी मंडल के अंतर्गत बनारस सिटी

स्टेशन पर यातायात सुविधा फेज-II के प्रावधान के सम्बन्ध में 25 केवी विद्युतीकरण क

कार्य। टेंडर रिफरेंश नंः SrDEE-TRD-BSB-

2025-26-T15, कार्य का अनुमानित लागत

रूपया में: ₹ 1,47,19,664.90, धरोहर राशि (रू

में): ₹ 2,23,600/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपय

ं: शून्य, निविदा बन्द होने की तिथि एवं समय

खली ई-निविदा दिनांक 25-11-2025 क

पूर्ण विवरण जानने हेतु एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिये कृपया भारतीय रेलवे की

मंडल विद्युत इंजीनियर / टीआरर्ड

वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

Proclamation Requiring

Attendence of Defendent

(Order 5, Rule 20 of

Code of Civil Procedure)

In The Court of

West District, Room No.

MACT Case No. 1189/24

Deepak Sharma

Versus

Karan Jhunjhunwala

Karan Jhunjhunwala S/o

Sh. Ajay Jhunjhunwala R/o 295, 1st Floor, Guru

Ramdass Nagar, Laxmi

Nagar, East Delhi-110092.

intentionally evading the

service of summons, it is

hereby notified that if you

shall not defend the case

on the 09th December,

2025 at 10 A.M. the day

fixed for the heraing/ final

disposal, the case will be

heard and determined ex-

Given under my hand and

seal of this Court on this

District Judge+MACT,

North-West District,

Rohini Courts, Delhi.

स्थानः सोनियाना, राजस्थान

तिथिः 5 नवम्बर, 2025

you

Respondent No.1

Whereas,

parte.

30.10.2025.

Vikram, District

Rohini Courts,

North-

25-11-2025 up to 14:45 Hrs., कार्य पूर

करने की अवधि: 09 माह।

गधि / विद्युत-1**75**

Judge+MACT,

Delhi.

14:45 बजे तक जमा कर सकेंगे ।

हेतु ''खुली'' ई—निविदा आमंत्रित करते हैं।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनव

आदेशानुसार, करणबीर सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-02, DP/14836/CD/2025 कमरा नं.-26, मध्य जिला, (अदालती मामला) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

प्रधानमंत्री इससे इनकार क्यों करते हैं कि ट्रंप से उनकी बात होती हैं: कांग्रेस

नई दिल्ली, (भाषा)। कांग्रेस ने व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट के एक बयान का हवाला देते हुए बुधवार को सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बात से इनकार क्यों करते हैं कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत होती है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कैरोलिन लेविट की टिप्पणी का वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और दोनों एक-दूसरे से अक्सर बातचीत करते हैं। रमेश एक्स पर पोस्ट किया, मई को शाम 5:37 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री (मार्को रुबियो) की घोषणा से भारत के लोगों को पता चला कि ऑपरेशन सिंदुर अचानक रोक दिया गया है।

साई बाबा जन्म शताब्दी: 140 देशों के भक्त एकत्रित होंगे, उपराष्ट्रपति-प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल

पुट्टपर्थी (आंध्र प्रदेश), (भाषा)। पटटपर्थी में श्री सत्य साई बाबा का जन्म शताब्दी समारोह 13 से 24 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है. जिसमें करीब 140 देशों के भक्त एकत्रित होंगे। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी भाग लेंगे। आयोजन में शामिल होने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क भोजन और ठहरने की व्यापक व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अस्थायी आश्रय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का भी समारोह के लिए पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आर जे रत्नाकर ने बताया कि भक्त इस अवसर का उपयोग साई मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए कर रहे हैं, जिसका सार है: सभी से प्रेम

करो, सभी की सेवा करो।

उन्होंने पीटीआई-भाषा कहा कि सभी साई भक्त और अनुयायी इस अवसर पर सेवा के मिशन के लिए खुद को पुन: समर्पित कर रहे हैं ताकि मानवता के बीच प्रेम और एकता फैले।

रत्नाकर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को शताब्दी समारोह के तहत श्री सत्य साई हिल व्य स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी है। उन्होंने कहा कि यह 2011 में बाबा की महासमाधि के बाद सबसे बड़ा आयोजन है। 23 नवंबर भक्तों के लिए सबसे प्रतीक्षित दिन है। उन्होंने कहा कि सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान का 44वां दीक्षांत समारोह 22 नवंबर को आयोजित होगा, जिसके मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन होंगे।

Public Notice

Be it i know to all that I, Sum

Bhargava S/o Sh. Kapil Bhargava

R/o 502/1 Ward No. 3 Mehrauli

New Delhi-110030, the owner of

Land Measuring 05 Bigha 19

Biswas In Khasra No. 3/2, 8 9. 12/1, 12/2, 13/1, 19/1, and 22/2

estate of village Raghopur, Tehsi Kapashera, District South West

New Delhi that now i am selling the

above said property. If any person

(s) claiming any right, title o

objection on or before 30.11.2025

If no objections are received within

the said period, the transactions

shall proceed and no claims will be

Public Notice

t is informed to public at large that m lient namely Smt. Biba Kanwar wife o

Sh. Rattan Singh R/o- House Katha

Barmer, Rajasthan-344043 intends to purchase One Shop bearing Private No S-1, on Second Floor, without terrace

oof right, upto ceiling level, having an it rea measuring 21.20 sq. mtrs., approx.

alongwith its common rights to use mai entrance, passage, staircase leadin from ground floor to second floor, bein

part of Freehold property bearin Municipal No. 2083, situated at ward No.

NUNICIPIA NO. 2003, SILURIED AT WARD NO.
IV, Kinari Bazar, Chandni Chowk, Delhi
110006 from its present owner namely
Mohd. Sharif Ansari son of Mohd. Rafi R/o- House No. 151, New Seelampur
Main Road, Delhi-110053 who has los

his Original Regd. Sale Deed No. 5264 dated 14.07.2008 in respect of above said property and the same may be treated as lost documents". Any Persons, Banks, Financial Institutions

having claiming any rights, title interests, lien, charge, mortgages etc., in the above captioned property or has any sorts of disputes, litigations, and or any objection for its sale to my client should

contact or notify the same (with valid documentary proof) to the undersigned within 7 days from the date hereof failing which it shall be presumed tha

the above captioned property is free from all sorts of encumbrances (of any

nature) and my client shall procee further to complete the sale I purchas

Asha Ram Verma, Advocate, Resi-cum-Office YP-62-A, Ground Floor, YP-Block, Pitampuura, Delhi-110034, Mobile No. 9810516149.

entertained there after.

(Sumit Bhargava)

terest in that condition, he can file

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 CrPC देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त अमित पुत्र निरंजन निवासी वाई-1871, मंगोलपुरी, दिल्ली ने FIR No. 1004/20, U/S 12/9/55 G. Act, पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी, बाहरी जिला, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियक्त **अभित** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त अमित फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 1004/20, U/S 12/9/55 G. Act, पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी, दिल्ली, बाहरी जिला, दिल्ली के उक्त अभियुक्त अभित से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 11.12.2025 को या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार

सुश्री रीतिका जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी—05, DP/14718/0D/2025 कोर्ट नं0 105, उत्तर-पूर्वी जिला, (Court Matter) रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 देखें मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त रिवन्दर उर्फ भोलू पुत्र ब्रह्म सिंह निवासीः म.नं. 542, गाँव मित्राऊँ, जाफरपुर कलाँ, नई दिल्ली ने FIR No. 90/25 दिनांक 12.04.2025 U/s 25 Arms Act. थानाः क्राईम ब्राँच, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **रविन्दर** उर्फ भोलू मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त रविन्दर उर्फ भोलू फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

12.04.2025 U/s 25 Arms Act. थानाः क्राईम ब्रॉच, दिल्ली के उक्त अभियुक्त रिवन्दर उर्फ भोलू से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 10.12.2025 को या इससे पहले हाजिर हो।

(Court Notice)

सीजेएम, (दक्षिण-पश्चिम), कमरा नं. 08 द्वारका कोर्ट, नई दिल्ली

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 90/25 दिनांक आदेशानुसार समीक्षा गुप्ता

DP/14887/Crime/2025

असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड

गार्डन, नई दिल्ली—110015 फोन (011) 49454900, कॉर्पोरेट कार्यालयः तीसरा एवं ग्यारहवां तल, टॉवर—डी, ग्लोबल बिजनैस पार्क, महरौली—गुड़गांव रोड, गुड़गांव—122002 (हरियाणा)

पंजीकृत कार्यालयः ए–2/10, प्रथम तल, डब्ल्यूएचएस डीडीए मार्बल मार्केट, कीर्ति नगर, मानसरोवर

र्गनः (0124) 4062212—19 फैक्सः (0124) 4062244 / 88 E-Mail: investorrelations@aisglass.com वेबसाइट: www.aisglass.com

30 सितम्बर 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही एवं छमाही के लिए अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम

				(
豖.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त छमाही	समाप्त तिमा
सं.		30.09.2025 अलेखापरीक्षित	30.09.2025 अलेखापरीक्षित	30.09.2024 अलेखापरीक्ष
1	प्रचालनों से कुल आय	1,16,215	2,40,166	1,16,331
2	अवधि के लिए निवल लाम (कर, अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	7,057	14,634	14,091
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	7,057	14,634	14,091
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	5,819	11,298	9,454
5	अविध के लिए कुल व्यापक आय (अविध के लिए लाम (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल)	5,829	11,391	9,361
6	इक्विटी शेयर पूंजी	2,549	2,549	2,431
	आरक्षित (पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)		2,64,469	
8	प्रति शेयर अर्जन (रु. 1/— प्रत्येक) (चालू एवं बंद प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)			
	(क) मूल	2.22	4.42	3.93
	(ख) तनुकृत	2.22	4.42	3.93
	30 सितम्बर 2025 को समाप्त दसरी तिमादी एवं छमादी के वि	राप्ट्रमच्या एकल ।	वेनीय जानका	ी

				(रु. लाख में)				
豖.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त छमाही	समाप्त तिमाही				
सं.		30.09.2025 अलेखापरीक्षित	30.09.2025 अलेखापरीक्षित	30.09.2024 अलेखापरीक्षित				
1	प्रचालनों से कुल आय	1,09,386	2,25,003	1,09,550				
2	कर पूर्व लाभ	6,683	13,922	13,818				
3	कर पश्चात लाभ	4,746	10,083	9,272				

उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.aisglass.com पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त परिणामों की 3 नवम्बर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्ष की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 5 नवम्बर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है। 3. कम्पनी के वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए नियमों और भारत में सामान्यता स्वीकार्य अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अंतर्गत निर्धारित इंड एएस 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग में मान्यताप्राप्त एवं मापक सिद्धांतों के अधीन कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2016 द्वारा यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक ("इंड एएस") के अनुरूप तैयार किया गया है।

4. माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने अपने आदेश दिनांक 19 मई, 2025 के माध्यम से कंपनी की तीन सहायक कंपनियों का एक अन्य सहायक कंपनी अर्थात् एआईएस ग्लास सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दे दी है जो नियत तिथि 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी। एनसीएलटी के आदेश की प्रमाणित प्रति, प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2025 को कंपनी रजिस्ट्रार, एनसीटी दिल्ली एवं हरियाणा के कार्यालय में दाखिल कर दिया गया है। इंड एएस 103—व्यावसायिक संयोजनों के अनुसार अनुमोदित योजना के अधीन व्यावसायिक संयोजन और कर व्यय सहित संबंधित विलय समायोजन नियत तिथि से एँआईएस ग्लास सॉल्यूशंस लिमिटेड के पुनर्निर्धारित वित्तीय विवरणों में शामिल किए जाएँगे। 5. तिमाही के दौरान कंपनी ने योग्य संस्थागत खरीददारों को इक्विटी शेयर जारी एवं आबंटित करके रु. 1000 करोड़

> कंपनी की वेबसाइट पर परिणाम देखने के लिए उपरोक्त क्यूआर कोड स्कैन करें

संजय लाबरू अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure) In The Court of

Sh. Lal Singh, District (Commercial Judge Court-01), South-East District, Room No. 18, Saket Courts, New Delhi. Case No. CS(Comm)/ 341/2025 Canara BankPlaintiff

Vs

Manish JainDefendant

Mr. Manish Jain (Prop M/S Surgical Deals Traders) 4435-36/4, 7 Ansari Road, Darya Ganj, Delhi-110002. Mob: 9891026230

Whereas intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **24.11.2025** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

the seal of the court, this 27.10.2025. Seal **District Judge**

Given under my hand and

(Commercial Court-01) South-East District, Saket Courts, New Delhi.

विधानिक सूचना: पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पडताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

回線線回 कृते निदेशक मंडल की ओर से